



**\*प्रेस नोट थाना गजरौला\***

**\*दिनांक: 27.10.2022\***

**\*थाना गजरौला पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार जिनके कब्जे से एक अदद आरी लोहा व एक प्लास्टिक कट्टा में 03 अदद पाईप 4 इन्ची व पिलन्च बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन व श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी मंडी धनौरा के निकट पर्यवेक्षण में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गजरौला पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार किये गये जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक अदद आरी लोहा व एक प्लास्टिक कट्टा में 03 अदद पाईप 4 इन्ची व पिलन्च बरामद हुई ।

**\*संक्षिप्त विवरण\***- अवगत कराना है कि आज दिनांक 27.10.2022 को थाना गजरौला पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.बादल पुत्र रामकिशोर 2.हिमांशू पुत्र नरदेव नि0गण ग्राम पाल थाना गजरौला जनपद अमरोहा को भानपुर फाटक केबिन के पीछे खेत से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे/निशादेही पर एक अदद आरी लोहा व एक प्लास्टिक कट्टा में 03 अदद पाईप 4 इन्ची व पिलन्च बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना गजरौला पर मु0अ0स0 683/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी ।



**\*गिरफ्तार अभियुक्त\*:-**

1. बादल पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम पाल थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

2. हिमांशू पुत्र नरदेव निवासी ग्राम पाल



थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

**\*बरामदगी का विवरण\*:-** एक अदद आरी लोहा व एक प्लास्टिक कट्टा में 03 अदद पाईप 4 इन्ची व पिलन्च ।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम\*:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अरिहन्त कुमार सिद्धार्थ थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
2. उ0नि0 श्री श्रवण कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
3. कां0 747 अक्षय कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
4. कां0 221 प्रमोद कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

